



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 28]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 5, 2001/माघ 16, 1922

No. 28]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 5, 2001/MAGHA 16, 1922

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2001

सं. डी.ए.सी./मिसल/2001/2809.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की भाग 12 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब एण्ड सिंध बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) ये विनियम पंजाब एण्ड सिंध बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) (संशोधन) विनियम, 2000 कहलाएंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी माने जाएंगे।

2. पंजाब एण्ड सिंध बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1981 में विनियम 6 में उप विनियम (2) के लिए निम्नलिखित उप विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(2) जब कभी अनुशासन प्राधिकारी की यह राय हो कि किसी अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध अवचारा या कदाचार के किसी अभ्यास की सत्यता की जांच करने के लिए आधार है तब वह स्वयं उसकी सत्यता की जांच कर सकेगा या किसी अन्य व्यक्ति को जो एक लोक सेवक हो या रहा हो, को जिसे इसमें इसके पश्चात् जांच प्राधिकारी कहा गया है, उसकी सत्यता की जांच करने के लिए नियुक्त कर सकेगा”।

स्पष्टीकरण.—जब अनुशासन प्राधिकारी स्वयं जांच करता है तब उप विनियम (8) से उप विनियम (21) में जांच प्राधिकारी के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जायेगा कि वह अनुशासन प्राधिकारी के प्रति निर्देश है।

यू. एस. कोहली, उप महाप्रबंधक (कार्मिक)

[विज्ञापन-III/IV/असा./134/2000]

पाद टिप्पणी : उपरोक्त विनियमों में पूर्व में किए गए संशोधन निम्नलिखित में दिए गए विवरणानुसार अधिसूचित किए गए थे :

अधिसूचना सं.

1. 27 दिनांक 3 जुलाई, 1993
2. 23 दिनांक 9 जून, 1997
3. 108 दिनांक 7 अगस्त, 2000
4. 130 दिनांक 25 सितम्बर, 2000

PUNJAB AND SIND BANK

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th January, 2001

No. DAC/MISC/2001/2809.—In exercise of the powers conferred by section 19 read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980) the Board of Directors of Punjab and Sind Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely :—

1. Short Title and Commencement.—(1) These Regulations may be called the Punjab and Sind Bank Officer Employees. (Discipline & Appeal) Amendment Regulations. 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2 In the Punjab and Sind Bank Officer Employees' (Discipline & Appeal) Regulations, 1981 in regulation 6, for sub-regulation (2), the following sub-regulations shall be substituted, namely :—

“(2) Whenever the Discipline Authority is of the opinion that there are grounds for inquiring into the truth of any imputation of misconduct or misbehaviour against an officer employee, it may itself enquire into, or appoint any other person who is, or has been, a public servant (hereinafter referred to as the Inquiring Authority) to inquire into the truth thereof.”

Explanation.—When the Disciplinary Authority itself holds the inquiry any reference in sub-regulation (8) to sub-regulation (21) to the Inquiring Authority shall be construed as reference to Disciplinary Authority

U S. KOHLI, Dy. General Manager (Personnel)

[ADVT III/IV/Exty./134/2000]

Foot Note : The amendments carried out earlier in the above regulations were Gazette as per details given below :

Notification Number

- 1 27 dated the 3rd July, 1993.
- 2 23 dated the 9th June, 1997.
- 3 108 dated the 7th August, 2000.
- 4 130 dated the 25th Sept., 2000.